

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

'एक मिनी रत्न कंपनी'

(कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अंग)

जन समर्पक विभाग

कोयला भवन, कोयला नगर
धनबाद – 826005 (झारखण्ड)

दूरभाष / फ़ैक्स : 0326-2230202

वेबसाईट: www.bccl.gov.in

ईमेल: bcclprodhanbad@gmail.com

सीआईएन : U10101JH1972GOI000918



BHARAT COKING COAL LIMITED

'A Mini Ratna Company'

(A Subsidiary of Coal India Limited)

Public Relation Department

Koyla Bhawan, Koyla Nagar

Dhanbad- 826005 (Jharkhand).

Phone/Fax: 0326-2230202

website: www.bccl.gov.in

email: bcclprodhanbad@gmail.com

CIN : U10101JH1972GOI000918

दिनांक 16.06.2018

प्रेस विज्ञप्ति

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार दिनांक 16.06.2018 से 30.06.2018 तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) श्री आर एस महापात्रा के नेत्रित्व में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई।

इस अवसर पर सबसे पहले कोयला नगर में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत सड़कों तथा किनारे की गंदगी कूड़ा कचड़ा को साफ किया गया। इसके साथ-साथ कोयला नगर में स्वच्छता अभियान से संबंधित कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कोयला नगरवासियों को संदेश दिया कि साफ-सफाई से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं।

स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में सुबह 11 बजे कोयला भवन में स्वच्छता शपथ का कार्यक्रम किया गया। निदेशक (कार्मिक) द्वारा सभी को शपथ दिलायी गयी। इस अवसर पर निदेशक (कार्मिक) द्वारा कहा गया कि साफ सफाई केवल खानापूति के लिया न कि जाए बल्कि इसे दिल से अपनाए जाने कि आवश्यकता है। स्वच्छता अपना कर ही हम स्वस्थ व सुखी जीवन यापन कर सकते हैं।

उपरोक्त स्वच्छता अभियान में निदेशक (वित्त) श्री के. एस. राजशेखर, निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री देवल गंगोपाध्याय, निदेशक (कार्मिक) श्री आर एस महापात्रा, मुख्य सतर्कता पदाधिकारी श्री कुमार अनिमेष, और बीसीसीएल के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी कि गई।

संपूर्ण बीसीसीएल में दिनांक 16-30 जून, 2018 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्वच्छता रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता संबंधी जागरूकता एवं परामर्श आदि गतिविधियाँ आयोजित की जानी है।

उप महाप्रबंधक (जन सम्पर्क)